



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 981 राँची, सोमवार,

22 अक्टूबर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

15 अक्टूबर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-135/2016-2566 (HRMS)-- चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि मो० अफताब आलम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-धनबाद), के विरुद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियातु, लातेहार के पद पर कार्यावधि में मनरेगा की कुल 3,75,28,529.40 रुपये का विभिन्न योजनाओं में अवैध रूप से राशि की निकासी करने एवं मनरेगा की उक्त राशि की क्षति होने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-839/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 द्वारा संलग्न प्रपत्र-क में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः मो० आलम के विरुद्ध प्रपत्र-क में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा मो० आलम को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर

लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. मो० आलम द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. मो० आलम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

| Sr No. | Employee Name G.P.F. No. | Decision of the Competent authority |
|--------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | MD. AFTAB ALAM JHK/JAS/162 | मो० अफताब आलम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियातु, लातेहार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
